

to gon

संख्या-वे03A0-1-1097/दरा-11-36(एम)/08

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- (2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।
- (3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पंचायतों, उत्तर प्रदेश ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2011

विषय:- राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस का भुगतान ।

पठित : निम्नलिखित:-

- (1) शासनादेश संख्या-वे0A0-1-1283/दरा-2010-36(एम)/08,
दिनांक 20 अक्टूबर, 2010
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन
संख्या-7/24/2007/संस्था-III(क) दिनांक 13 सितम्बर, 2011

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-2010 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे ।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 सितम्बर, 2011 द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिए

30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त कम संख्या--(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 के कम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थायी निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम ग्रेड वेतन ₹0 4800/- (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम ₹0 13500 से कम है) में है, को वर्ष 2010-2011 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) नई वेतन संरचना के अंतर्गत ग्रेड वेतन ₹0 4800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम ₹0 13500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
- (2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 तक वर्ष की गिरता सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है।
- (3) तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2011 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
- (4) दिनांक 31 मार्च, 2011 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ ₹0 3500/- से ज्यादा होने की स्थिति में ₹0 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2011 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (₹0 3500 X 30/30.4 = 3453.95) अर्थात् ₹0 3454/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी।
- (5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दौषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2010-2011 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।
- (6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

- (7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4- कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियां रू० 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू० 1200 X 30/30.4 = 1184.21 अर्थात् 1184/- पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रू० 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5- सभी भेरी के कर्मचारियों, जिन्होंने उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2011 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनकी अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6- बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-बे०आ०-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तान्वित किया जायेगा।

भवदीया,



(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0आ0-1-1097(1)/दस-2011-36(एम)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं ह. म. दारी) एवं 11 तथा (आडिट) 1 एवं 11 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0सी0भवन, नई दिल्ली।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर विकास अनुभाग-3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-3, आवास अनुभाग-2, तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
- (9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 और 15, प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-1/2, नगर विकास अनुभाग-1, पंचायती राज अनुभाग-1 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (11) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कनिश्चर, कानपुर।
- (12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।
- (14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (15) प्रभारी, चिकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।